

# सरकारी योग्य घरों की आपूर्ति करना सरकार की प्राथमिकता 2022 तक 100 मिलियन होगी घरों की संख्या



रवीन्द्र  
सुधालकर

प्राप्त गृहें।

यह कोई परम रहस्य नहीं है कि भारत की बढ़ती आबादी को भी रहने के लिए एक आवास की ज़रूरत है। एक रिपोर्ट के मुताबिक खरीदने योग्य घरों की संख्या वर्ष 2022 तक 100 मिलियन के जितनी ऊँची हो सकती है। यद्यपि, मांग और आपूर्ति कानून के विपरीत, इस बढ़ती हुई मांग ने वास्तव में आवास इकाइयों की बिक्री को भारी मात्रा में बढ़ाया तो नहीं है। उच्च अचल संपत्ति की लागत, सूझबूझ से पारदर्शिता की कमी, अस्पष्ट और विलंबित

आरईआरए की तरफ से सभी के फ्लॉट ए आवास, लाभों के धसान से भरा जेब के अनुकूल पाकिट-फ्रेन्डली और तेजी से

समयसीमा और खराब सेवा ने खरीदारों को बाजार से दूर कर दिया है। वास्तविक रूप से इन अंतरालों को समझते हुए, खरीदने योग्य घरों की ज़रूरत और आवास इकाइयों की मांग और आपूर्ति दोनों के बीच की अंतरालों को जोड़ने के इरादे से और सस्ती वित्त की आपूर्ति करना ही, सरकार के साथ एक प्रमुख प्राथमिकता रही है।

सरकार की जुड़वां-चालें जैसे, प्रधान मंत्री आवास योजना पीएमएवाय के तहत सब्सिडी वाले होम लोन देने की योजना अब एमआईजी को भी कवर करने के लिए विस्तारित किया गया है और रियल एस्टेट विनियमन अधिनियम आरईआरए की शुरूआत ने एंजेंडा के शीर्ष पर केवल खरीदने योग्य घरों को ही नहीं लगाया है बल्कि घर-खरीदारों के काम को भी आसान बना दिया है। लोग-केन्द्रता और नीति के लिए यही सुधारवादी दृष्टिकोण ही जेब के अनुकूल पाकिट-फ्रेन्डली घरों और पूंजी के लिए मार्ग तैयार कर रही है जो

डेलिवर करने की जवाबदेही की शुरूआत करेगी और उसके परिणामस्वरूप संपत्ति के बाजार में निवेशित रहने के लिए घर के मालिक होने की लागत उच्च होने के नाते और हमारे जैसे देशों में एक घर पर निवेश उच्च भावनात्मक उत्पाद होने के नाते, आसान वित्त तक की पहुंच, खरीदारों को प्रोत्साहित करने के लिए एक निश्चित-रूप से आकर्षित करनेवाला तरीका है। सबकुछ कहने के बाद, अभी तक, बिना आकर्षक उपहारों के, घर का वित्त भी बहुत कम ही हासिल कर सका है। अमेरिका में 52 प्रतिशत की तुलना में, भारत में जीडीपी में गिरवी योगदान केवल 9 प्रतिशत है। पीएमएवाय के तहत ब्याज सब्सिडी के जरिए लोगों को इक्विटी समर्थन देने और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों एचएफसी के लिए अन्य अनुकूल विनियामक समर्थन प्रदान करने के लिए नीतियां अब उपलब्ध हैं एंजिसमें वित्तीय और बीमा क्षेत्रों में निवेश के लिए सेक्टर-साइज कैप के साथ रेटेड एचएफसीयों के अलावा ऋण

लिए, इसका अर्थ सस्ता वित्त होता है और आखिरकार अपने घर के मालिक होने का मौका होता है। घर के मालिक होने की लागत उच्च होने के नाते और हमारे जैसे देशों में एक घर पर निवेश उच्च भावनात्मक उत्पाद होने के नाते, आसान वित्त तक की पहुंच, खरीदारों को प्रोत्साहित करने के लिए एक निश्चित-रूप से आकर्षित करनेवाला तरीका है। सबकुछ कहने के बाद, अभी तक, बिना आकर्षक उपहारों के, घर का वित्त भी बहुत कम ही हासिल कर सका है। अमेरिका में 52 प्रतिशत की तुलना में, भारत में जीडीपी में गिरवी योगदान केवल 9 प्रतिशत है। पीएमएवाय के तहत ब्याज सब्सिडी के जरिए लोगों को इक्विटी समर्थन देने और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों एचएफसी के लिए अन्य अनुकूल विनियामक समर्थन प्रदान करने के लिए नीतियां अब उपलब्ध हैं एंजिसमें वित्तीय और बीमा क्षेत्रों में निवेश के लिए सेक्टर-साइज कैप के साथ रेटेड एचएफसीयों के अलावा ऋण

म्यूचुअल फंड को एचएफसी में अपनी संपत्ति का 40 प्रतिशत तक निवेश करने की अनुमति होगी। इससे भी अधिक तो यह है कि एराष्ट्रीय आवास बैंक एनएचबी समाज के कमजोर वर्ग में ऋण का विस्तार करने के लिए पुनर्वित कांस्थिर स्थिर प्रदान कर रहा है ऐसे ही निम्न और मध्यम आय वर्ग के खरीदारों को सपोर्ट भी कर रहा है। ये योजनाएं अब एचएफसी को नियामक से निधि की कम लागत तक पहुंचने की अनुमति देती हैं और फिर इसे एक निश्चित फैलाव में उधार देते हैं, जो पहले के 2 प्रतिशत से बढ़ाकर 3.5 प्रतिशत हो गया है इस प्रकार एचएफसी और बैंकों को इस खंड को लाभप्रद रूप से पूरा करने में मदद करता है। जब डेवलपर्स के लिए ऋण सस्ता हो जाता है, तो खरीदारों को उनके भत्तों से लाभ होने की उम्मीद होती है, जो नतीजतन अंतिम उपभोक्ता तक पहुंच जाते हैं। इसके अतिरिक्त, सूचना साझाकरण और डिजिटलीकरण द्वारा संचालित

आधार-आधारित इकेवाईसी सत्यापन पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है, जो घर ऋण प्रसंस्करण के लिए कम लागत और त्वरित बदलाव में परिणामित हुआ है एंजिसे वास्तविक उपभोक्ता के ज़रूरत के अंतर को हल किया जा सका है।

सीएलएसएस योजना के तहत पात्रता में और बढ़ोतारी रूपये 6 लाख के आय के वर्ग से लेकर 18 लाख तक एक वर्ष के लिए के आय वर्ग के लिए, इससे शहरी और मध्यम-आय वाले आबादी की एक बड़ी संख्या के लिए लाभ पहुंचाया जा सकेगा। इसके अलावा स्टाम्प इयूटी के शुल्क को कम करना घर खरीदने की कुल लागत को अधिक आकर्षक बना सकता है।

एक महत्वपूर्ण पहलू है जिस पर चर्चा किया जाना अभी बाकी है, वह है परियोजना पूर्ण होने में विलंब होने की, जो कि हमारे देश में अचल संपत्ति की उच्च लागत में योगदान करने के प्रमुख कारणों में से एक है। रियल, स्टेट विनियमन अधिनियम; आरईआरए।